



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 माघ 1946 (श०)

(सं० पटना 90) पटना, बुधवार, 5 फरवरी 2025

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

5 फरवरी 2025

सं० 3/एम०-33/2024-2163/सा०प्र०—भारत-संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, “बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005” (समय-समय पर यथासंशोधित) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।—

- (1) यह नियमावली “बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली, 2025” कही जा सकेगी।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. “बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005” (समय-समय पर यथासंशोधित) में नियम-2(त) का अन्तःस्थापन।— उक्त नियमावली के नियम-2 में उपनियम-(त) निम्नवत् अन्तःस्थापित किया जाता है—

“(त) ‘निदेशालय’ से अभिप्रेत है, मुख्य जाँच आयुक्त निदेशालय।

3. “बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005” (समय-समय पर यथासंशोधित) के नियम-4, 5, 6 एवं 6 (स्पष्टीकरण) का संशोधन।— उक्त नियमावली के नियम-4, 5, 6 एवं 6 (स्पष्टीकरण) में प्रयुक्त शब्द “समूह-‘घ’” को विलोपित किया जाता है।

4. “बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005” (समय-समय पर यथासंशोधित) के नियम-14 में स्पष्टीकरण-4 जोड़ा जाना।— उक्त नियमावली के नियम-14 में स्पष्टीकरण-3 के बाद स्पष्टीकरण-4 निम्नवत् जोड़ा जाता है—

"स्पटीकरण-4: इस नियम में विहित कोई दण्ड अधिरोपित किये जाने के पूर्व, नियम-31 के प्रावधानानुसार निर्धारित विहित प्रपत्र में गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित, आरोप-पत्र (अवचार या कदाचार के लांछन/लांछनों का अभिकथन) के आधार पर आरोपी सरकारी सेवक को बचाव का लिखित अभिकथन समर्पित करने का अवसर दिया जाना आवश्यक होगा।"

5. "बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005" (समय-समय पर यथासंशोधित) के नियम-16 में उपनियम-3 जोड़ा जाना।— उक्त नियमावली के नियम-16 में उपनियम-3 निम्नवत् जोड़ा जाता है—

"(3) सरकार के सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा शक्ति प्रदत्त निदेशालय द्वारा, आरोपी सरकारी सेवकों के विरुद्ध संस्थित कार्यवाही का संचालन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण किया जा सकेगा।"

6. "बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005" (समय-समय पर यथासंशोधित) के नियम-17 (2) के परन्तुक में संशोधन।— उक्त नियमावली के नियम-17(2) के परन्तुक में प्रयुक्त शब्दों "विभागीय जाँच आयुक्त" तथा "अपर विभागीय जाँच आयुक्त" को क्रमशः "मुख्य जाँच आयुक्त" तथा "जाँच आयुक्त" से प्रतिस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
डॉ० बी० राजेन्दर,  
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

5 फरवरी 2025

सं० 3/एम०-33/2024-2164/अधिसूचना संख्या 2163, दिनांक 5 फरवरी 2025 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत-संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
डॉ० बी० राजेन्दर,  
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

The 5<sup>th</sup> February 2025

No.-3/M-33/2024-2163/GAD—In exercise of the powers conferred under proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar makes the following Rules to amend the "Bihar Government Servant (Classification, Control and Appeal) Rules, 2005" (as amended from time to time)—

1. *Short title, extent and commencement.*—

- (1) These Rules may be called as the "Bihar Government Servant (Classification, Control and Appeal) (Amendment) Rules, 2025."
- (2) It shall extend to the whole State of Bihar.
- (3) It shall come into force from the date of its publication in official Gazette.

2. *Insertion of Rule-2(p) in Bihar Government Servant (Classification, Control and Appeal) Rules, 2005 (as amended from time to time).*—In the said rules, Rule-2(p) shall be inserted as follows-

"(p) "Directorate" means 'Chief Inquiry Commissioner Directorate'."

3. *Amendment in Rules-4, 5, 6 and 6(Explanation) of Bihar Government Servant (Classification, Control and Appeal) Rules, 2005 (as amended from time to time).*— In Rules 4, 5, 6 and 6(Explanation) of the said rules, group of words "Group-D", wherever used, shall be deleted.

4. *Addition of Explanation-4 in Rule-14 of Bihar Government Servant (Classification, Control and Appeal) Rules, 2005 (as amended from time to time).*—In Rule-14 of the said Rules, Explanation-4 shall be added after Explanation-3 as follows-

"**Explanation-4:** Before imposing any of the penalties specified in this Rule, the concerned Government Servant shall be given an opportunity, to submit his statement of defence, on the basis of Article of Charges (statement of the imputations of misconduct or misbehaviour), formed in the format as prescribed according to the provisions contained in Rule-31, and approved by the disciplinary authority."

**5. Addition of Sub-rule-3 in Rule-16 of Bihar Government Servant (Classification, Control and Appeal) Rules, 2005 (as amended from time to time).—**In Rule-16 of the said Rules, Sub-rule-3 shall be added as follows-

"(3) The Directorate, empowered by a general or special order of the Government, shall conduct, supervise and monitor the proceedings instituted against the delinquent government servants."

**6. Amendment in Proviso of Rule-17(2) of Bihar Government Servant (Classification, Control and Appeal) Rules, 2005 (as amended from time to time).—** The group of words "Departmental Enquiry Commissioner" and "Additional Departmental Enquiry Commissioner" used in Proviso of Rule-17(2) shall be substituted by the group of words "Chief Enquiry Commissioner" and "Enquiry Commissioner" respectively

**By the order of the Governor of Bihar,  
Dr. B. Rajender,  
Additional Chief Secretary to the Government.**

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 90-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>